

@Shajahanpurpol

प्रेस नोट: सराहनीय कार्य 04.09.2021

थाना जैतीपुर पुलिस द्वारा चोरी की 02 मोटरसाइकिल सहित 02 चोरों को किया गिरफ्तार

श्री एस आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु संजीव कुमार वाजपेयी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी तिलहर के निर्देशन में क्रियाशील एवं चिन्हित किये गये अपराधियों की गिरफ्तारी एवं अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना जैतीपुर पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

दिनांक 04.09.2021 को गश्त व चैकिंग के दौरान थाना जैतीपुर पुलिस टीम द्वारा 02 नफर अभियुक्तगण 1.श्रीपाल पुत्र नत्थूलाल उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम भुडेली थाना दातागंज जनपद बदायूं 2. कुँवरपाल पुत्र लक्ष्मण उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम वसावन थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली को **बनखण्डी पुलिसिया** से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 02 अदद चोरी शुदा मोटरसाइकिल हीरो होन्डा स्पेलन्डर प्लस व बजाज पल्सर 150 फर्जी नम्बर प्लेट लगी हुयी बरामद हुयी। अभियुक्तगण श्रीपाल व कुँवरपाल उपरोक्त के विरुद्ध थाना जैतीपुर पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण :-

1. श्रीपाल पुत्र नत्थूलाल उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम भुडेली थाना दातागंज जनपद बदायूं।
2. कुँवरपाल पुत्र लक्ष्मण उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम वसावन थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली।

पंजीकृत अभियोगो का विवरण:-

1. मु0अ0स0 356/2021 धारा 420,414 भादवि बनाम श्रीपाल व कुँवरपाल उपरोक्त।

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद मोटरसाइकिल फर्जी नम्बर प्लेट हीरो होन्डा स्पेलन्डर प्लस रंग काला सिल्वर ओरेन्ज रंग की पट्टी लगी हुयी थी जिसपर फर्जी नम्बर UP23B6438 की नम्बर प्लेट लगी हुयी थी जिसका सही रजिस्ट्रेशन नम्बर UP25V5074 व चैसिस नम्बर 05M16C47989 व इंजन नम्बर 15M15M47386 होना पाया गया।
2. एक अदद मोटरसाइकिल फर्जी नम्बर प्लेट बजाज पल्सर 150 हरे रंग की जिसपर फर्जी नम्बर UP25M1886 की नमबर प्लेट लगी हुयी थी जिसका सही रजिस्ट्रेशन नम्बर UA04A9120 व चैसिस नम्बर DHVBKM27920 व इंजन नम्बर DHGBKM27402 होना पाया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष अरविन्द सिंह चौहान थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
2. उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
3. उ0नि0 श्री नगेन्द्र सिंह थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
4. हे0का0 465 सुधीर कुमार थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर
5. का0 2305 प्रशान्त महालवार थाना जैतीपुर जनपद शाहजहाँपुर

